



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 16) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2012

सं0 22/नि0सि0 (पट0) 3-01/2012/1101—श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को अरवल जिला में माननीय मुख्यमंत्री की प्रस्तावित सेवा यात्रा हेतु आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के स्तर पर दिनांक 18.11.2011 को निर्धारित समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने हेतु दिनांक 15.11.11 को दूरभाष पर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग अंचल, पटना द्वारा सूचित किया गया था परन्तु उक्त निर्धारित तिथि को बैठक में भाग नहीं लेने के एवज में आयुक्त मगध प्रमंडल, गया द्वारा सूचित किया गया कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया और न ही उनके द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक 3270 दिनांक 23.11.11 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री राम विलास चौधरी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री चौधरी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 18.11.11 को आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के स्तर पर आयोजित बैठक के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया से दूरभाष पर वार्ता करने पर बताया गया कि आयुक्त के द्वारा दिनांक 18.11.11 को नवीनगर में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। दिनांक 18.11.11 को कोई बैठक निर्धारित नहीं है।

समीक्षा के कम में पाया गया कि आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के स्तर पर दिनांक 18.11.11 को निर्धारित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया से सम्पर्क

स्थापित करना चाहिए था, न कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया से। इस प्रकार उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

अतः अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहने के लिए श्री चौधरी को निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया—

1. निन्दन वर्ष 2011—12

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना को निम्न दंड दिया जाता है—

1. निन्दन वर्ष 2011—12

अतएव एतद् द्वारा श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

श्याम कुमार सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 16-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>